



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

प्राधिकार प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] मई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1969/भाद्र 5, 1891

No. 149] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1969/BHADRA 5, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 27th August 1969

G.S.R. 2094.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by Section 5 of the said Act shall, in relation to the rice-mills in the State of Gujarat, be exercisable also by the District Magistrates in districts within their respective jurisdiction, and by the Food Controller, in the city of Ahmedabad.

[No. 209(GUJ)(1)/1098/69-PY.II.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

(605)

